



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2024—कार्तिक 10, शक 1946

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्र. ई-5-875-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इलैया राजा टी., भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 17 से 19 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन आईएफएमटीएम टाप-2024-पेरिस (फ्रांस) में इंटरनेशनल एक्सिजिबिशन में भाग लेने के फलस्वरूप शासकीय विदेश भ्रमण के अनुक्रम में दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कार्यान्तर एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर पर श्री इलैया राजा टी., भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुन. पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री इलैया राजा टी., भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इलैया राजा टी., भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्र. ई-1-179-2024-5-एक.—श्री संदीपयादव, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5487

(2) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथ आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-184-2024-5-एक.—श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे (2004), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, दि-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-209-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका		
क्र.	अधिकारी का नाम/ बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री किशोर कुमार कन्याल (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.	कलेक्टर, जिला श्योपुर.
2.	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा (2014), कलेक्टर, जिला निवाड़ी.	अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.
3.	श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड (2014), कलेक्टर, जिला श्योपुर.	कलेक्टर, जिला निवाड़ी.

क्र. ई-1-211-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है :—

तालिका		
क्र.	अधिकारी का नाम/ बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	सुश्री सौम्या आनंद (2021), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	सहायक कलेक्टर जिला शहडोल.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री कार्तिकेय जायसवाल (2022), अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट.
3.	श्री विशाल धाकड़ (2022), अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.	सहायक कलेक्टर, जिला धार.

क्र. ई-5-593-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 23, 24 एवं 30 नवम्बर 2024, 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

क्र. ई-5-924-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का दिनांक 18 से 25 अक्टूबर 2024 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 17 एवं 26, 27 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे (2006), आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

फा. क्र. 2827-इक्कीस-ब(दो)-2024.—राज्य शासन, एतद्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18(1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 2092-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर / नई दिल्ली में नियुक्त विधि पदाधिकारियों में से इंदौर कार्यालय में नियुक्त सुश्री नीलू खत्री, उप शासकीय अधिवक्ता (Enroll No. 491 / 2018 को छोड़कर शेष समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ताओं/ उप महाधिवक्ताओं/ शासकीय अधिवक्ताओं/ उप शासकीय अधिवक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

पंजी क्र. 4067-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पद पर श्री अमिताभ मिश्रा के स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

फा. क्र. 4198-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री दिनेश सिंह राणा, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सागर को सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर में रिक्त पद पर एवं श्री शिव कुमार कौशल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी को सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिंडौरी में रिक्त पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक एतद्वारा नियुक्त करता है.

पंजी क्र. 4070-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किए जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा निम्नानुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री दीपक बंसल, Registrar (Administration), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.	सातवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के रिक्त स्थान पर.
2.	श्री जयन्त शर्मा, Registrar (Inspection & Litigation), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.	बारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के रिक्त स्थान पर.

फा. क्र. 4184-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री राजकुमार वर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेगमगंज, जिला रायसेन को सचिव के पद पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर में प्रतिनियुक्ति पर श्री अरूण कुमार खराड़ी के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

पंजी क्र. 4135-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किए जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा निम्नानुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री हितेन्द्र द्विवेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर.	सातवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना के रिक्त स्थान पर.
2.	श्रीमती कुमुदिनी पटेल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल.	15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल के रिक्त स्थान पर.

फा. क्र. 4203-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री आयुषी उपाध्याय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बैदन, जिला सिंगरौली का व्यवहार न्यायाधीश, "कनिष्ठ खण्ड" के पद से

त्याग-पत्र दिनांक 2 अक्टूबर 2024 के अपरान्ह से स्वीकार करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

### औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

क्र. 1453-2259441-2024-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के कॉलम (2) में दर्शित अधिकारी को, सारणी के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने हेतु अधिकृत करता है:—

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम / पदनाम (2)	अधिनियम की धाराएं (3)	क्षेत्र (4)
1	श्री सुदेश मालवीय, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, मुख्यालय, भोपाल (प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार).	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	सागर संभाग, सागर

क्र. 1455-2259441-2024-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुदेश मालवीय, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दिया जाकर प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें संबंधित क्षेत्र के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रशासन का कार्य सौंपा जाता है। श्री मालवीय उपरोक्त कार्य के साथ मुख्यालय, भोपाल के लेखा कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्वानुसार सम्पादित करेंगे।

उक्त आदेश प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से जारी किया जाता है। अतः असिस्टेंट रजिस्ट्रार के प्रभार को आधार बनाकर श्री सुदेश मालवीय स्वयं की पदोन्नति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

### महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

क्र. 2092-2347522-2024-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) [किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम 2016) का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

#### अनुसूची

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्य का नाम (3)	
1	छतरपुर	1. श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव 2. श्री योगेश कुमार सिन्हा	सदस्य सदस्य
2	रीवा	1. डॉ. कृष्णपाल शर्मा 2. श्रीमती रंजना शर्मा	सदस्य सदस्य
3	सिवनी	1. सुश्री शशिबाला डहेरिया 2. श्रीमती ज्योति सिंह राजपूत	सदस्य सदस्य

क्र. 2092-2347522-2024-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम 2016) का नियम 88(10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

### अनुसूची

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष / सदस्य का नाम (3)	
1	छतरपुर	1. श्री आनंद भार्गवे 2. श्री मणिकान्त गुप्ता 3. श्रीमती बरखा मिश्रा 4. श्री इन्दू प्रकाश सिंह 5. श्रीमती शकुंतला शुक्ला	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
4	रीवा	1. डॉ. मीनाक्षी मिश्रा 2. श्री अनिल कुमार अग्निहोत्री 3. श्रीमती प्रवीण मिश्रा 4. श्रीमती विभा द्विवेदी 5. सुश्री आरती शर्मा	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
5	सिवनी	1. श्री मुकेश कुमार सेन 2. श्री अखिलेश कुमार यादव 3. श्री शैलेन्द्र बिसेन 4. श्रीमती रूपाली टेम्भरे 5. श्री सुधीर सिंह ठाकुर	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

### संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-5-24-रा. स.-यू. ए. 1-1243.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्र. एफ-1-5-24-रा. स.-यू. ए. 1-1103, दिनांक 11 सितम्बर 2024 के द्वारा प्रो. भरत मिश्रा, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वि. वि., चित्रकूट, जिला सतना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है। समिति में प्रो. खेम सिंह डेहरिया, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी वि. वि., भोपाल एवं प्रो. चक्रधर त्रिपाठी, कुलपति, ओडिशा केन्द्रीय वि. वि., सुनाबेड़ा, कोरापुट (ओड़ीशा) सदस्य हैं।

2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है परन्तु किन्ही कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है।

3. अतः, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित 06 सप्ताह की समयावधि में 04 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है।

कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के आदेशानुसार,  
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

**देवास विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना**

क्र. 4617-वि. यो.-देवास-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास, मध्यप्रदेश.

**अनुसूची**

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	देवास विकास योजना, 2031	आवासीय	4	4-सा-15	1	रो-हाऊसिंग, मल्टी डेव्हलिंग यूनिट, आवासीय प्रकोष्ठ, ग्रुप हाऊसिंग, फ्लेट्स, होटल.
		वाणिज्यिक	4	4-सा-15	2	शॉपिंग मॉल, शोरूम
		(अ) सामान्य वाणिज्यिक			(अ एवं ब)	
		(ब) विशेषीकृत वाणिज्यिक				
		औद्योगिक	4	4-सा-15	3	छात्रावास
		(अ) सेवा उद्योग			(अ एवं ब)	
		(ब) अन्य उद्योग				

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

**वन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्र. एफ 14-82-1988-दस-2

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 28 सहपठित धारा-64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 3(4) में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर हेतु प्रवेश शुल्क की तालिका (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

**(क) शुल्क तालिका**

क्र.	भ्रमण का प्रकार	पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रु. में)
1	पैदल भ्रमण (प्रति व्यक्ति)	25
2	• स्वयं की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति)	30
	• वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति)	40
3	दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)	80
4	ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)	120
5	हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले)	300
6	हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक की क्षमता वाले)	500
7	मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)	1,100
8	बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले)	2,200
9	• गोल्फ कार्ट से भ्रमण (दरें प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त)	
	प्रति व्यक्ति	60
	5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	40
	5 वर्ष तक की आयु के बच्चे	निःशुल्क
	पूरी गोल्फ कार्ट (अधिकतम 6 व्यक्ति)	400
	• प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सफारी भ्रमण (प्रति ट्रिप)	
	प्रति व्यक्ति	100
	5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	30
	5 वर्ष तक की आयु के बच्चे	निःशुल्क
	सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	1,000
10	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सूर्यास्त उपरांत सफारी भ्रमण (प्रति ट्रिप)	
	प्रति व्यक्ति	300
	5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	150
	5 वर्ष तक की आयु के बच्चे	निःशुल्क
	सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	1,500

बैट्री चालित वाहनों हेतु उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत राशि देय होगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर में आगामी पर्यटन वर्ष 01 अक्टूबर, 2024 से प्रारंभ होने वाले सत्र में उक्त शुल्क पर्यटक द्वारा देय होगा। तत्पश्चात प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रुपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा। विदेशी पर्यटकों हेतु उक्त शुल्क तथा उप नियम 3(5) की तालिका में वर्णित शुल्क दुगुना होगा।

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 11(3)(ख) के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(ग) शेष अन्य संरक्षित क्षेत्रों हेतु पर्यटन वर्ष 2025-26 से प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रुपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा।

उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 14-82-1988-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के नियम क्र. एफ 14-82-1988-दस-2, दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

No. F 14-82-1988-X-2

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> October 2024

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (h) of sub-section (2) of section 64 read with section 28 of the as amended Wildlife (Protection) Act, 1972, the State Government, hereby, make the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) ) Rules, 1974, namely:-

### AMENDMENTS

In the sub-rule 3(4) of the Rule 34 of Madhya Pradesh Wildlife (Conservation) Rules, 1974, entry fee for Table (a) Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo is substituted as follows:-



## (a) Fee Table

Sr	Purpose of visit	Entry Fee (Amt. in Rs.)
1	Visit by walk (Per Person)	25
2	• By own cycle (Per Person)	30
	• Visit by Van Vihar National Park cycle (Per Person)	40
3	Two wheelers (maximum 2 Persons)	80
4	Auto Rikshaw (maximum 4 Persons including	120
5	Light Motor Vehicle (up to 5 Person capacity)	300
6	Light Motor Vehicle (More than 5 Person capacity)	500
7	Mini bus (up to 20 Person capacity)	1,100
8	Bus (More than 20 Person capacity)	2,200
9	• Safari by Golf cart	
	Per Person	60
	Children's between 5-12 years	40
	Children below 5 years of age	Free
	Full golf cart (maximum 6 Person)	400
	• Safari by vehicle provide by management	
	Per Person	100
	Children's between 5-12 years	30
	Children below 5 years of age	Free
	Full vehicle (maximum 6 Person)	1,000
10	Night safari by vehicle provided by management	
	Per Person	300
	Children's between 5-12 years	150
	Children below 5 years of age	Free
	Full vehicle (maximum 6 Person)	1,500

For battery operated vehicles only 75 percent of the above rates will be payable. The above fee will be paid by tourists in Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo in the upcoming tourism season starting from October 1, 2024. Thereafter, 10 percent fee increase will be applicable after every three years, which will be rounded off to Rs 5. For foreign tourists the above fee and the fee mentioned in sub-rule 3(5) table will be double.

Below sub-rule 11(3)(b) of Rule 34 of Madhya Pradesh Wildlife (Conservation) Rules, 1974, following is added: -

(c) For the remaining other protected areas, 10 percent fee increase will be applicable in every 03 years from the tourism year 2025-26 which will be rounded off to Rs 5.

These amendments will come into force from the date of publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. 9785-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0038-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक यार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यत निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

:-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	13.115 हेक्टर

:-अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उज्जैन ग्रामीण
(ग) ग्राम	:- मंगरोला
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी मृमि रकबा (हेक्टे.मै)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	58	0.070	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	165/4	0.400		
3	167/3	0.010		
4	181	0.580		
5	180/2	0.030		
6	177	0.370		
7	168	0.010		
8	56/2/3	0.350		
9	56/1	0.040		
10	169	0.010		
11	171/1	0.350		
12	171/3	0.010		
13	172	0.230		
14	173/1	0.250		
15	173/3	0.200		
16	220/1	0.020		
17	220/3	0.070		
18	217	0.005		
19	218/1/1	0.070		
20	218/2/1	0.060		
21	264	0.030		
22	265	0.030		
23	266/1	0.080		
24	267	0.010		
25	303/2/1	0.170		
26	302/1/1	0.160		
27	302/2/1	0.020		
28	357/1	0.030		
29	356/1	0.050		
30	262	0.090		

31	221/1	0.140	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
32	222	0.150		
33	363/1	0.030		
34	365/1	0.040		
35	366/1	0.110		
36	227	0.250		
37	228	0.830		
38	225/1	0.130		
39	261	0.480		
40	260	0.260		
41	226	0.400		
42	225/2	0.120		
43	225/3	0.130		
44	223	0.180		
45	259	0.490		
46	229	0.050		
47	232	0.020		
48	230	0.050		
49	224	0.090		
50	231	0.180		
51	258/1	0.070		
52	57	0.290		
53	50	0.120		
54	52	0.150		
55	53	0.100		
56	185	0.060		
57	184	0.250		
58	182	0.070		
59	183	0.790		
60	102	0.210		
61	102/1569	0.620		
62	129	0.490		
63	127	0.610		
64	126	0.010		
65	104	0.370	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
66	107	0.400		
67	106/2	0.420		
68	105	0.120		
69	105/1567/1	0.030		
कुल रकबा		13.115		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में अनुविभागीय (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9777-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0013-अ-82-2024-25

छोटे राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेल्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक बार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेल्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामायात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेल्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	0.224 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- घटिया
(ग) ग्राम	:- वजीरपुर(जोगीखेड़ी)
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 0.224 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा(हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	4	0.010	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेल्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	84	0.023		
3	85/1/1	0.027		
4	85/1/2	0.010		
5	86/1/2/2	0.015		
6	87	0.007		
7	88/1	0.122		
8	88/2	0.010		
कुल रकबा		0.224		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घटिया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घटिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9779-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0011-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 4.3 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	7.883 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- घटिया

(ग) ग्राम

:- सोड़ग

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 7.883 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	634	0.330	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	633/1	0.011		
3	574	0.275		
4	575	0.241		
5	576	0.479		
6	606	0.005		
7	577	0.935		
8	596	0.220		
9	595	0.271		
10	593	0.173		
11	594	0.330		
12	584	0.821		
13	591	0.060		
14	592	0.017		
15	590	0.472		
16	585	0.690		
17	582	0.513		
18	436	0.163		
19	437	0.086		
20	446	0.011		
21	442	0.009		
22	444/2	0.016		
23	370/2	0.004		
24	371	0.077		
25	372	0.001		
26	374	0.030		
27	375	0.062		
28	376	0.060		
29	377	0.276		
30	378	0.058		
31	379	0.087		
32	586	0.720		
33	587	0.118		
34	412	0.107		
35	417	0.003		
36	425	0.016		
37	426/2	0.006		
38	431	0.050		
39	432/1	0.022		
40	432/2	0.042	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
41	432/3	0.008		
42	434	0.008		
कुल रकबा		7.883		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घड़िया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घड़िया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9780-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0016-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	25.788 हेक्टर

--:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- उज्जैन

:- घटिया

:- बड़ोदिया काजी

:- 25.788 हेक्ट.



क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हिक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	734	0.020	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	706/1	0.002		
3	706/2	0.149		
4	705/1	0.557		
5	705/2	0.419		
6	703	0.086		
7	702/1	0.323		
8	702/2	0.987		
9	702/3	0.286		
10	696/2	0.001		
11	697	0.840		
12	698/1	0.060		
13	698/2	0.090		
14	699/1	0.094		
15	699/2	0.380		
16	699/3	0.073		
17	269/2	0.623		
18	270	0.170		
19	271/1	0.126		
20	271/2	0.489		
21	275	0.502		
22	276	0.680		
23	278	0.048		
24	267	0.001		
25	265	1.331		
26	266	0.278		
27	259/1	0.280		
28	260	0.564		
29	261	1.002		
30	255	0.048		
31	257/1	0.516		
32	257/2	0.345		
33	256/1	0.348		
34	256/2	0.045		
35	243	0.038		
36	244	0.286		
37	253/1	0.003		
38	245	0.333		
39	247	0.034		
40	231	0.015		
41	223	0.001		

42	224	0.120	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
43	225/1	0.119		
44	226/1	0.147		
45	226/2	0.004		
46	227	0.144		
47	228/1	0.064		
48	228/2	0.077		
49	229/1	0.055		
50	229/2	0.100		
51	230/1	0.021		
52	230/2	0.091		
53	80/1	0.295		
54	80/2	0.458		
55	65/1	1.085		
56	65/2	0.004		
57	57/1	0.593		
58	57/2	0.238		
59	57/3	0.168		
60	57/4	0.150		
61	57/5	0.223		
62	57/6	0.235		
63	41/1	0.258		
64	41/2	0.064		
65	42	0.261		
66	49/1	0.014		
67	49/2	0.092		
68	47	0.001		
69	39/1	0.001		
70	43/1/1	0.012		
71	43/1/2	0.029		
72	43/2	0.200		
73	43/3	0.042		
74	37/1	0.686		
75	37/2/1	0.064		
76	36/1	0.216		
77	36/2	0.187		
78	38/2/1	0.007		
79	22/2	0.275		
80	22/1	0.718		
81	23/2	0.234		
82	23/1/1	0.008		
83	23/1/2	0.001		
84	18	0.547		
85	17	0.368		

86	16	0.106	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
87	20/1	0.140		
88	19/1	0.315		
89	19/2	0.195		
90	4/1	0.010		
91	4/2	0.862		
92	3/1	0.847		
93	3/2	0.025		
94	3/3	0.005		
95	2	0.057		
96	266	0.348		
97	265	0.100		
98	267	0.450		
99	275	0.062		
100	278	0.765		
101	276	0.117		
102	281/2	0.010		
103	281/1	0.217		
104	280	0.008		
कुल रकबा		25.788		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9783-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0019-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामायात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	7.203 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- घटिया

(ग) ग्राम

:- तुमड़वदा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 7.203 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	1035	0.420	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	1043	0.015		
3	1040	0.168		
4	1041	0.064		
5	1042	0.270		
6	1047/1	0.102		
7	1047/2	0.203		

8	1049/1	0.003	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
9	1052	0.895		
10	894/1	0.410		
11	894/2	0.060		
12	894/3	0.393		
13	894/4	0.045		
14	894/5	0.067		
15	894/6	0.102		
16	870/1	0.380		
17	870/2	0.125		
18	868	0.150		
19	869/1	0.064		
20	869/2	0.089		
21	867/2	0.006		
22	867/3	0.003		
23	871	0.026		
24	872	0.001		
25	875	0.317		
26	876	0.086		
27	874/2	0.224		
28	874/1	0.019		
29	879/1	0.501		
30	879/2	0.320		
31	95/2	0.020		
32	95/3	0.147		
33	95/1	0.840		
34	94	0.196		
35	90/2	0.012		
36	90/3	0.227		
37	91	0.030		
38	93/1	0.200		
39	93/2	0.003		
कुल रकबा		7.203		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9784-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0022-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	0.037 हेक्टर

-अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- घटिया
(ग) ग्राम	:- रामगढ़
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 0.037 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	274/1	0.022	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	401/3	0.015		
कुल रकबा		0.037		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 1 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय (रा.) अनुभाग घटिया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घटिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9781-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0018-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्वुटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्वुटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्वुटी मॉडल पर निर्माण	9.451 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- घटिया

(ग) ग्राम

:- नागपुरा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 9.451 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	520	1.478	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	521	0.024		
3	519/1	0.022		
4	519/2	0.078		
5	519/3	0.024		
6	233	0.241		
7	232	0.475		
8	231	0.103		
9	230	0.003		
10	218	0.706		
11	219/1	0.270		
12	219/2	0.022		
13	220	0.343		
14	221	0.130		
15	223	0.004		
16	214	0.396		
17	213	0.028		
18	184/2	1.260		
19	179	0.423		
20	178	0.082		
21	180	0.427		
22	181	0.052		
23	96	0.010		
24	135	0.026		
25	136	0.074		
26	132	0.875		
27	131/1	0.462		
28	131/2	0.155		
29	123	0.027		
30	124	0.206		
31	125	0.043		
32	126	0.572		
33	127	0.410		
कुल रकबा		9.451		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।



क्र.-9778-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0021-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामायात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	6.714 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- उज्जैन

:- घटिया

:- परोलियाझाली

:- 6.714 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	349/2	0.245	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	345/2	0.378		
3	345/3	0.017		
4	348	0.341		
5	346	0.251		
6	342	0.254		
7	341	0.062		
8	313/1/1	0.013		
9	313/1/2	0.047		
10	313/1/3	0.069		
11	313/1/4	0.265		
12	313/2/1	0.030		
13	313/2/2	0.030		
14	313/2/3	0.030		
15	313/2/4	0.053		
16	264/2/2	0.282		
17	264/2/1	0.460		
18	263/2/3	0.002		
19	263/2/2	0.020		
20	263/2/1	0.033		
21	257/2/1	0.070		
22	257/2/2	0.091		
23	257/2/3	0.069		
24	255/1	0.410		
25	255/2/1	0.170		
26	255/2/2	0.022		
27	254	0.421		
28	249	1.250		
29	246/2	0.400		
30	246/1	0.719		
31	247/1	0.129		
32	245/1	0.063		
33	245/4	0.016		
34	245/3	0.002		
कुल रकबा		6.714		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9782-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0011-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	0.132 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- घटिया

(ग) ग्राम

:- दिनायगा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 0.132 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	111	0.117	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	112	0.015		
कुल रकबा		0.132		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घटिया के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घटिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9803-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0034-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	15.782 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

## (1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उन्हेल

(ग) ग्राम

:- रामाबालोदा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 15.782 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	390/1/2	0.027		
2	390/1/1/2	0.036		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	388/1	0.148	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	388/2	0.540		
5	388/3	0.050		
6	345	0.005		
7	387/1	0.298		
8	387/2	0.246		
9	346/5	0.200		
10	346/7	0.098		
11	385/1	0.103		
12	348	0.435		
13	382	0.004		
14	349	0.323		
15	335/2/3	0.237		
16	335/1	0.150		
17	335/2/2	0.010		
18	316	0.039		
19	317	0.760		
20	318	0.061		
21	319	0.069		
22	319/1071	0.003		
23	306/1	0.001		
24	306/2	0.050		
25	304/2	0.003		
26	301	0.220		
27	300/1	0.144		
28	300/2	0.168		
29	299/1	0.048		
30	299/2	0.003		
31	298	0.048		
32	540	0.069		
33	541	0.039		
34	542	0.200		
35	543	0.278		
36	199/1	0.001		
37	549/1	0.002		
38	548/1	0.070		
39	547/1	0.286		
40	547/2	0.166		
41	546	0.009		
42	560/1	0.028		
43	561	0.211		
44	562/1	0.247		
45	562/2	0.154		
46	563/1	0.035		
47	564	0.240		
48	565	0.298		
49	567	0.007		
50	120/2/2	0.053		
51	119/1	0.141		
52	119/2	0.086		
53	118	0.618		
54	116	0.076		
55	115/1/1	0.270		
56	115/2	0.200		
57	115/3	0.555		
58	131/1/1	0.001		
59	131/1/2	0.078		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
60	131/4	0.024	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्त्युटी मॉडल
61	132/1/3	0.104		
62	132/2	0.045		
63	133	0.248		
64	134	0.232		
65	106	0.015		
66	104/1	0.237		
67	104/2	0.035		
68	104/3	0.032		
69	104/4	0.023		
70	105/1	0.115		
71	105/2	0.094		
72	135/1	0.095		
73	135/2	0.002		
74	103/5	0.265		
75	103/6/1	0.059		
76	103/6/2	0.162		
77	103/4/2	0.155		
78	103/4/3	0.064		
79	103/3	0.038		
80	108	0.476		
81	76/1	0.044		
82	76/2/1	0.035		
83	76/2/2	0.065		
84	77/2	0.735		
85	74	0.069		
86	78/1	0.068		
87	78/2	0.300		
88	80/2/1	0.366		
89	80/2/2	0.152		
90	60/1	0.097		
91	60/2	0.467		
92	59/1	0.021		
93	59/2	0.010		
94	58	0.068		
95	57/1	0.041		
96	57/2	0.571		
97	56	0.013		
98	55/1	0.167		
99	55/2	0.628		
100	54/1	0.058		
101	54/2	0.154		
102	53	0.190		
कुल रकबा		15.782		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों, यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।



क्र.-9804-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0035-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	17.485 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उन्हेल
(ग) ग्राम	:- पासलोद
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 17.485 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	194/1	0.099		
2	194/2	0.048		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	195	0.673	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	196/1/1	0.524		
5	196/1/2	0.010		
6	202	1.065		
7	203	0.153		
8	204	0.113		
9	206/1	0.245		
10	206/2	0.169		
11	207/1	0.140		
12	207/2	0.115		
13	207/3	0.001		
14	266	0.090		
15	267/1	0.190		
16	267/2	0.165		
17	268	0.080		
18	269	0.220		
19	270/3	0.275		
20	270/1	0.200		
21	272/2	0.014		
22	272/3	0.078		
23	272/4	0.073		
24	273/2	0.360		
25	273/3	0.470		
26	274	0.845		
27	275	0.257		
28	277/1	0.045		
29	303/1	0.043		
30	304/1/1	0.017		
31	304/1/2/1	0.024		
32	304/1/2/2	0.028		
33	304/2	0.028		
34	308	0.532		
35	309/1	0.732		
36	309/2	0.450		
37	310	0.059		
38	312/1	0.585		
39	320	0.003		
40	324	0.815		
41	325	0.070		
42	326	0.598		
43	327	0.073		
44	328	0.031		
45	329	0.040		
46	330	0.092		
47	332	0.792		
48	354	0.658		
49	355	0.768		
50	356	0.530		
51	357	0.145		
52	359	0.019		
53	360	0.028		
54	362	0.127		
55	364	0.004	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
56	365	0.070		
57	380/1	0.074		
58	380/2	0.060		
59	381	0.003		
60	408/1	1.038		
61	408/2	0.331		
62	408/3	0.041		
63	411/2	0.028		
64	413	0.460		
65	414	0.580		
66	415/1	0.074		
67	420/1	0.719		
कुल रकबा		17.485		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।



क्र.-9806-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0037-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	17.949 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :- उज्जैन  
 (ख) तहसील :- नागदा  
 (ग) ग्राम :- भाटीसुड़ा  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 17.949 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	134	0.119		
2	135/1/1	0.076		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	136/2	0.238	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हेड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हम्ब्रिड एन्युटी मॉडल
4	137/1	0.184		
5	137/2	0.225		
6	137/4	0.432		
7	138/1	0.103		
8	138/2	0.242		
9	139	0.047		
10	140/1	0.009		
11	127	0.027		
12	122/2	0.549		
13	124	0.130		
14	122/1	0.946		
15	158/5	0.036		
16	120/1	0.224		
17	182/1039	0.060		
18	178/1015/1	0.525		
19	178/1015/2	0.046		
20	178	0.857		
21	180	0.077		
22	179	0.291		
23	732	0.406		
24	734/1	0.017		
25	734/2	0.060		
26	729/4	0.356		
27	729/5/1	0.205		
28	729/5/2	0.040		
29	729/5/3	0.035		
30	731	0.149		
31	730/1	0.004		
32	729/2	0.038		
33	729/3/1	0.063		
34	729/3/2	0.046		
35	729/3/3	0.121		
36	726/1	0.002		
37	726/2	0.145		
38	726/3	0.253		
39	726/4	0.110		
40	726/5	0.100		
41	726/6	0.080		
42	725	0.443		
43	781	0.325		
44	780/1	0.248		
45	782/3	0.196		
46	782/2	0.178		
47	782/1	0.230		
48	792/3	0.175		
49	791	0.360		
50	790	0.468		
51	783/1031/5	0.002		
52	789	0.112		
53	788	0.263		
54	787	0.249		
55	794/1	0.340		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
56	786	0.114	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
57	806/3	0.211		
58	813/1033/2	0.127		
59	813/1033/4	0.405		
60	814/2	0.194		
61	814/1	0.980		
62	813/1	0.118		
63	813/2	0.010		
64	848/1/1	0.052		
65	849/2/1	0.100		
66	849/2/2	0.095		
67	849/1	0.028		
68	848/1/2	0.091		
69	848/2	0.714		
70	850/1	0.002		
71	850/2	0.242		
72	851/3	0.105		
73	853	0.815		
74	854/1	0.095		
75	854/2	0.289		
76	875/1	0.007		
77	869/1	0.642		
78	869/2	0.386		
79	868	0.614		
80	866/2	0.251		
कुल रकबा		17.949		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9802-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0033-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	9.068 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उन्हेल

(ग) ग्राम

:- आक्या नजीक

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 9.068 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	253	0.272		
2	255/1	0.004		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	255/2	0.043	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	256	0.002		
5	255/617	0.036		
6	251	0.860		
7	247/1	0.576		
8	246	0.038		
9	248/1/1/2	0.589		
10	248/1/2	0.001		
11	248/2	0.598		
12	244	0.025		
13	280/2/1	0.058		
14	203/1/1/2/2	0.156		
15	203/1/1/1	0.192		
16	203/1/2	0.105		
17	203/2/1	0.090		
18	203/2/2	0.382		
19	205/1	0.164		
20	205/2	0.752		
21	204	0.080		
22	206/1	0.297		
23	206/2	0.002		
24	201	0.564		
25	197	0.639		
26	198	0.426		
27	199	0.001		
28	191	0.025		
29	192	0.479		
30	196	0.317		
31	185	0.125		
32	186	0.195		
33	184	0.406		
34	183	0.098		
35	182	0.377		
36	181	0.017		
37	179	0.077		
कुल रकबा		9.068		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आवेदो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9801-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0032-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	4.069 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- नागदा

(ग) ग्राम

:- झिरनिया खाचरोद

(घ) निजी-भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 4.069 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	502/5	0.086		
2	502/6	0.230		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	502/7	0.196	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	502/8	0.182		
5	502/9	0.179		
6	502/10	0.158		
7	502/11	0.174		
8	502/12	0.137		
9	502/13	0.154		
10	502/14	0.132		
11	502/15	0.122		
12	502/16	0.137		
13	502/17	0.123		
14	502/18	0.118		
15	502/19	0.132		
16	502/20	0.128		
17	502/21	0.115		
18	502/22	0.112		
19	502/23	0.136		
20	502/24	0.101		
21	502/25	0.163		
22	502/26	0.155		
23	502/27	0.163		
24	502/28	0.170		
25	502/29	0.154		
26	502/30	0.039		
27	502/31	0.166		
28	524	0.207		
कुल रकबा		4.069		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।



क्र.-9800-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0031-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कर्मांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक चार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, मोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1):--

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	6.104 हेक्टर

--:अनुसूची (2):--

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उन्हेल

(ग) ग्राम

:- पिपल्याडाबी

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 6.104 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	554	0.068		
2	554/658/1	0.475		



क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	554/658/2	0.195	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	554/658/3/1	0.434		
5	554/650/1	0.188		
6	554/650/2	0.200		
7	553/637/1	0.174		
8	553/637/2	0.073		
9	553	0.010		
10	548/1	0.477		
11	550/1/2	0.125		
12	550/2	0.235		
13	549/1	0.084		
14	551	0.058		
15	511	0.890		
16	515	0.058		
17	510	0.083		
18	514/1	0.001		
19	514/2	0.034		
20	524/2	0.368		
21	519/1	0.151		
22	519/2	0.555		
23	527/2	0.394		
24	527/3	0.774		
कुल रकबा		6.104		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9798-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0029-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	7.419 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उन्हेल

(ग) ग्राम

:- लसूड़िया घुवड़

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 7.419 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	517/1	1.070		
2	514	0.532		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	400/3	0.399	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	400/1	0.129		
5	401/1	0.143		
6	401/2	0.256		
7	403/1/1	0.025		
8	403/1/2	0.057		
9	403/2	0.310		
10	404	0.123		
11	410	1.002		
12	497	0.425		
13	498	0.020		
14	499	0.340		
15	495	0.001		
16	494	0.290		
17	483	1.559		
18	481	0.392		
19	478/3	0.182		
20	476/1	0.085		
21	476/2	0.035		
22	475/4	0.044		
कुल रकबा		7.419		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9797-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0028-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	1.553 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- नागदा

(ग) ग्राम

:- पिपल्याशीरा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 1.553 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	400/3	0.035		
2	401/1	0.186		
3	401/2	0.337	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	403	0.172		
5	405	0.716		
6	407/2	0.107		
कुल रकबा		1.553		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9796-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0027-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

#### —अनुसूची (1):—

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	6.036 हेक्टर

#### —अनुसूची (2):—

##### (1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उन्हेल
(ग) ग्राम	:- नवादा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 6.036 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	356	0.373		
2	355	0.252		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	322/1/1	0.480	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	322/1/2	0.540		
5	322/1/3	0.076		
6	322/2	0.552		
7	321/1	0.146		
8	321/2	0.237		
9	321/3	0.194		
10	320/1/1	0.006		
11	320/1/2	0.171		
12	320/2	0.045		
13	323	0.003		
14	317/1	0.517		
15	317/2	0.398		
16	316/1	0.099		
17	318	0.021		
18	312/1	0.376		
19	312/2/1	0.400		
20	312/3	0.359		
21	312/5	0.031		
22	311/1	0.351		
23	311/2	0.403		
24	309/1	0.006		
कुल रकबा		6.036		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9795-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0026-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	8.036 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उन्हेल
(ग) ग्राम	:- कुण्डला
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 8.036 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	166	0.190		
2	167	0.150		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	168	0.092	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	169	0.120		
5	170	0.117		
6	176	0.657		
7	163	0.031		
8	164	0.224		
9	162	0.406		
10	161	0.140		
11	160	0.042		
12	159	0.050		
13	153	0.035		
14	158	0.109		
15	157	0.861		
16	144/1/1	0.115		
17	144/1/2	0.064		
18	99	0.009		
19	100	0.202		
20	101	0.258		
21	126/1	0.073		
22	126/2	0.014		
23	102	0.320		
24	107	0.238		
25	105	0.109		
26	106	0.367		
27	109	0.310		
28	111	0.523		
29	110	0.001		
30	112	0.292		
31	113	0.137		
32	116	0.129		
33	117	0.310		
34	35	0.003		
35	34	0.167		
36	36	0.009		
37	33	0.488		
38	32	0.211		
39	31	0.463		
कुल रकबा		8.036		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।



क्र.-9794-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0025-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	6.614 हेक्टर

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उन्हेल

(ग) ग्राम

:- नागडिरी

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 6.614 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	227/1	0.030		
2	218/2	0.346		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	218/1/1	0.261	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	218/1/2	0.066		
5	219/2	0.275		
6	219/1/1	0.101		
7	220	0.394		
8	224/3	0.112		
9	221/1	0.062		
10	215	0.312		
11	215/364	0.006		
12	214	0.294		
13	211	0.316		
14	210/1	0.331		
15	210/2	0.356		
16	168/1	0.019		
17	168/2	0.016		
18	168/3	0.049		
19	168/4	0.084		
20	169	0.220		
21	170	0.120		
22	171	0.078		
23	172	0.108		
24	209	0.152		
25	208	0.010		
26	85/2	0.085		
27	82	0.220		
28	181	0.002		
29	173/2	0.194		
30	173/1	0.146		
31	174/1	0.179		
32	174/2	0.055		
33	174/3	0.050		
34	175	0.380		
35	176/1	0.290		
36	176/2	0.016		
37	176/3	0.280		
38	177/2	0.184		
39	79	0.350		
40	80	0.065		
कुल रकबा		6.614		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9793-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0024-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	6.997 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उन्हेल
(ग) ग्राम	:- जियाजीगढ़
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 6.997 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	163	0.380		
2	162/4	0.514		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	162/5	0.302	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	162/3	0.247		
5	162/2	0.040		
6	156	0.520		
7	155	0.205		
8	148	0.508		
9	151	0.405		
10	150/1	0.115		
11	150/2	0.220		
12	152/1	0.476		
13	152/2	0.002		
14	111/1/1	0.009		
15	115/1	0.751		
16	115/2	0.068		
17	114/1	0.020		
18	116/1/1/1/2	0.006		
19	116/1/1/2	0.175		
20	116/1/2	0.182		
21	116/2	0.006		
22	131/1	0.118		
23	131/2	0.320		
24	129	0.033		
25	134	0.338		
26	126	0.190		
27	125	0.031		
28	127/2	0.015		
29	123/1	0.220		
30	123/2/1	0.202		
31	123/2/2	0.086		
32	122/2	0.035		
33	121/3	0.258		
कुल रकबा		6.997		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9813-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0012-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थायी क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	3.161 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण	
(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- घट्टिया
(ग) ग्राम	:- सारोला
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 3.161 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	65	0.527	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	64	0.066		
3	62	0.615		
4	55/2	0.036		
5	56	0.347		
6	57/2	0.403		
7	57/1	0.094		
8	59	0.028		
9	58	0.350		
10	44	0.672		
11	43	0.023		
कुल रकबा		3.161		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9814-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0020-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक चार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगन सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाजिक निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	4.803 हेक्टर

--:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- घटिया

(ग) ग्राम

:- धुलमहू

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 4.803 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	252/2	0.099	संभागीय प्रबंधक म.प्र.राइक विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल
2	251	0.293		
3	250/1	0.354		
4	250/2	0.417		
5	247/2	0.187		
6	247/3	0.287		
7	247/4	0.069		
8	244/1	0.472		
9	244/2	0.025	संभागीय प्रबंधक म.प्र.राइक विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल
10	244/3	0.217		
11	249/1	0.156		
12	243	0.011		
13	242/2	0.567		
14	220/1/1	0.207		
15	220/2	0.038		
16	239	0.272		
17	230/2/2	0.103		
18	230/2/1	0.025		
19	222	0.329		
20	223	0.072		
21	224	0.403		
22	225	0.200		
कुल रकबा		4.803		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घटिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9815-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0017-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	3.665 हेक्टर

-:अनुसूची (1) :-

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| (1) भूमि का विवरण                     |                 |
| (क) जिला                              | :- उज्जैन       |
| (ख) तहसील                             | :- घटिया        |
| (ग) ग्राम                             | :- हिरन्सा      |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 3.665 हेक्टर |



क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हिक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	490	0.007	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	461/1	0.100		
3	461/2	0.070		
4	461/3	0.070		
5	461/4	0.043		
6	461/5	0.027		
7	463/2/2	0.005		
8	463/2/1	0.025		
9	463/1/1	0.012		
10	463/1/2	0.018		
11	462/2	0.060		
12	462/3	0.140		
13	462/4	0.092		
14	459/1	0.050		
15	459/2	0.200		
16	457	1.009		
17	458	0.023		
18	456	1.034		
19	451	0.001		
20	454	0.512		
21	452	0.011		
22	453	0.156		
कुल रकबा		3.665		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।



क्र.-9811-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0042-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में चिर्निर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	12.581 हेक्टर

--:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उज्जैन नगर

(ग) ग्राम

:- मोहनपुरा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 12.581 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हिक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	630	0.016	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	609/1	0.240		
3	609/2	0.500		
4	561	0.165		
5	574	0.417		
6	575	0.311		
7	573	0.509		
8	572	0.821		
9	629/1	0.271		
10	629/2	0.831		
11	644/684/1/1	0.384		
12	644/684/1/2	0.031		
13	643/1	0.485		
14	643/2	0.920		
15	477	0.037		
16	476/2	0.610		
17	467/1	1.037		
18	464	0.204		
19	261/1	0.440		
20	256	0.014		
21	9/2/2/2	0.006		
22	9/2/2/1	0.639		
23	9/1	0.540		
24	10/1	0.167		
25	10/2	0.021		
26	11/2/1/2	1.044		
27	11/4	0.209		
28	39/1	1.170		
29	24	0.194		
30	25/2	0.348		
कुल रकबा		12.581		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9809-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0042-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामायात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	2.488 हेक्टर

--:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- उज्जैन

:- उज्जैन नगर

:- मोजमखेड़ी

:- 2.488 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	47/3/3	0.180	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हेड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	47/3/2	0.040		
3	47/2/2	0.280		
4	36/2/2	0.010		
5	36/2/1/2/1	0.500		
6	11/1/2/1/2	0.170		
7	11/1/2/2	0.007		
8	10/1/5/2	0.040		
9	10/1/6/2/2	0.030		
10	10/1/7/2/2	0.027		
11	10/1/8/2/2	0.025		
12	4/2/1/2	0.050		
13	4/2/4/2	0.107		
14	4/2/4/4/1	0.100		
15	4/2/4/3	0.061		
16	5/3/1	0.157		
17	5/3/2	0.090		
18	5/3/3	0.088		
19	5/2	0.121		
20	5/7	0.077		
21	5/5	0.007		
22	5/6/1	0.010		
23	5/6/2	0.093		
24	5/1	0.026		
25	6/1/2	0.127		
26	6/5	0.021		
27	6/1/1	0.040		
28	2/2	0.004		
कुल रकबा		2.488		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9810-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0043-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम युजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	0.277 हेक्टर

--:अनुसूची (1) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- उज्जैन नगर

(ग) ग्राम

:- भीतरी चक-1

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 0.277 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	5/1	2.717	संभागीय प्रबंधक म.प्र.राइक विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	7	0.199		
3	8/2/1	1.387		
4	8/3	0.716		
5	8/4	0.500		
6	8/5	0.209		
7	8/6	0.104		
8	8/7	0.105		
कुल रकबा		0.277		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आवेगो यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9812-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0043-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाज्यता निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सक्रियकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.) के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	1.451 हेक्टर

-अनुसूची (1) :-

- (1) भूमि का विवरण  
 (क) जिला :- उज्जैन  
 (ख) तहसील :- उज्जैन नगर  
 (ग) ग्राम :- भदेइमयतक  
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 1.451 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हिबटे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	95	0.009	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइविड एन्युटी मॉडल
2	96	0.030		
3	90	0.925		
4	52/5/2	0.067		
5	52/1	0.099		
6	47/1/1	0.058		
7	57/2	0.014		
8	58/10	0.047		
9	58/4/1/1/1	0.100		
10	58/2	0.052		
11	58/12/1	0.026		
12	58/4/2	0.024		
कुल रकबा		1.451		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9945-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0058-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 29 अक्टूबर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	10.288 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- खाचरोद

(ग) ग्राम

:- मीण

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 10.288 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	529/1	0.121		
2	529/2	0.299		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	524	0.796	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	523/1	0.272		
5	523/2	0.425		
6	517/1	0.483		
7	517/2	0.003		
8	521	0.245		
9	519/1	0.439		
10	519/2	0.192		
11	520/1	0.120		
12	593/2	0.033		
13	562/2	0.205		
14	588/1	0.122		
15	588/2	0.390		
16	588/3	0.196		
17	589/1	0.411		
18	589/2	0.195		
19	589/3	0.040		
20	589/4	0.003		
21	585/1	0.094		
22	585/2	0.236		
23	584/3	0.096		
24	618	0.667		
25	619	0.105		
26	617/1	0.643		
27	617/3	0.511		
28	649/2	0.368		
29	646/1	0.002		
30	646/2	0.003		
31	646/3	0.010		
32	646/4	0.015		
33	645/2	0.222		
34	645/1	0.005		
35	644/1	0.232		
36	644/2	0.084		
37	633	0.002		
38	642/1	0.369		
39	642/2	0.067		
40	639	0.249		
41	640	0.144		
42	641	0.348		
43	891/2	0.487		
44	891/1	0.105		
45	892	0.170		
46	893/1	0.064		
कुल रकबा		10.288		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।



क्र.9946-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0055-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उस भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	11.782 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- खावरोद

(ग) ग्राम

:- धिनौदा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 11.782 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	498/3	0.005		
2	499/2	0.057		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	499/3	0.300	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	501	0.553		
5	506	0.133		
6	505	0.459		
7	502/1	0.002		
8	503/1	0.096		
9	503/2	0.259		
10	503/3	0.204		
11	504	0.020		
12	588	0.929		
13	596/2451	0.064		
14	587	0.050		
15	585	0.408		
16	584/1	0.075		
17	584/2	0.074		
18	583	0.034		
19	599/1	0.200		
20	599/2	0.362		
21	597/2	0.049		
22	598/1	0.518		
23	602	0.013		
24	603	0.528		
25	604	0.064		
26	631	0.195		
27	629	0.753		
28	627/1	0.448		
29	627/2	0.070		
30	626	0.005		
31	626/2439	0.176		
32	625	0.607		
33	644	0.141		
34	648	1.314		
35	656	0.846		
36	655/1	0.170		
37	655/2	0.150		
38	654/1	0.085		
39	654/2	0.110		
40	651	0.517		
41	653/2	0.153		
42	650/2	0.038		
43	653/1	0.525		
44	1241/1/1/1/1	0.003		
45	1242/1/1	0.015		
46	1242/2	0.005		
कुल रकबा		11.782		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9947-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0048-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	7.003 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :- उज्जैन  
(ख) तहसील :- खावरोद  
(ग) ग्राम :- भैंसोला  
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 7.003 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	836	0.678		
2	837/1	0.303		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	837/2	0.458	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	839	0.538		
5	847/1	0.260		
6	847/2	0.180		
7	847/3	0.007		
8	887	0.916		
9	888/1	0.019		
10	889	0.725		
11	891/1	0.001		
12	895	0.213		
13	893	0.184		
14	896/4	0.248		
15	896/3	0.376		
16	896/2	0.009		
17	896/1/1	0.159		
18	896/1/2	0.019		
19	897/1	0.268		
20	897/2	0.602		
21	899	0.593		
22	901/1	0.247		
कुल रकबा		7.003		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9948-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0059-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, मोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	4.064 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :- उज्जैन  
(ख) तहसील :- खाचरोद  
(ग) ग्राम :- श्रीबच्छ  
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 4.064 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	537/1	0.025		
2	537/2	0.185		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	537/3	0.335	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	541/1	0.097		
5	540/1	0.040		
6	540/2	0.050		
7	540/3	0.060		
8	540/4	0.050		
9	540/5	0.220		
10	546/1	0.128		
11	546/2	0.146		
12	539	0.141		
13	557	0.290		
14	558/1	0.066		
15	558/2	0.006		
16	556	0.002		
17	555	0.047		
18	571	0.130		
19	570	0.274		
20	569	0.010		
21	568	0.017		
22	572	0.114		
23	575/1	0.400		
24	575/2	0.007		
25	575/3	0.118		
26	575/4	0.400		
27	575/5	0.203		
28	580/2	0.015		
29	580/3	0.111		
30	580/4	0.351		
31	579	0.026		
कुल रकबा		4.064		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9949-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0049-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

--अनुसूची (1)--

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	1.742 हेक्टर

--अनुसूची (2)--

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :- उज्जैन

(ख) तहसील :- खाचरोद

(ग) ग्राम :- गोठड़ा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 1.742 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	6/1/1	0.010	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
2	6/1/2	0.030		
3	11	0.349		
4	12	0.685		
5	16/1	0.096		
6	13	0.164		
7	14	0.408		
कुल रकबा		1.742		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों में भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9950-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0054-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	13.634 हेक्टर

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- खाचरोद
(ग) ग्राम	:- कंचनखेड़ी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 13.634 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	94/1	0.100		
2	94/2	0.273		



क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	93/2	0.010	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	95/1	0.435		
5	95/2	0.445		
6	96	0.575		
7	414/577	0.100		
8	416	0.269		
9	415/1	1.470		
10	415/2	0.771		
11	417	0.152		
12	418/1	0.380		
13	419	0.311		
14	420	1.210		
15	421/1	0.154		
16	421/2	0.454		
17	408/1	0.149		
18	408/2	0.310		
19	408/3	0.193		
20	409	0.100		
21	463/2	0.010		
22	464	0.190		
23	465	0.230		
24	468	0.270		
25	469	0.010		
26	470	0.455		
27	471	0.789		
28	460	0.020		
29	472/1	0.152		
30	467/7	0.032		
31	467/8	0.631		
32	491	0.088		
33	503/578	0.086		
34	503	0.131		
35	504/2	0.387		
36	502	0.870		
37	501	0.123		
38	556/1	0.093		
39	557	0.509		
40	558	0.541		
41	105/2	0.001		
42	105/3	0.009		
43	106/1	0.050		
44	106/2/2	0.078		
45	106/2/1	0.010		
46	415/3	0.008		
कुल रकबा		13.634		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9952-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0041-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	13.773 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला :- उज्जैन  
(ख) तहसील :- उन्हेल  
(ग) ग्राम :- गुरला  
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 13.773 हेक्ट

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	19/2	0.049		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	31/3/2	0.071	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जायरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
3	32	0.894		
4	33/1	0.604		
5	33/2	0.017		
6	33/3/1	0.199		
7	33/3/2	0.598		
8	36/1	0.205		
9	36/4	0.170		
10	37/1	0.581		
11	38/1	0.496		
12	38/2/1	0.017		
13	40	0.001		
14	41/1	0.170		
15	41/2	0.168		
16	41/3	0.108		
17	41/4	0.040		
18	42	0.057		
19	57/2	0.097		
20	58	0.275		
21	123	1.251		
22	124	1.050		
23	130	0.067		
24	202	0.428		
25	203	0.115		
26	204	0.615		
27	205/1	0.045		
28	205/2	0.149		
29	206/2/1	0.350		
30	206/2/2/1	0.095		
31	217/1	0.148		
32	217/2	0.162		
33	218	0.554		
34	219	0.488		
35	220	0.253		
36	228	1.194		
37	229	0.287		
38	234	0.096		
39	236/1/1	0.181		
40	236/1/2	0.018		
41	237	0.211		
42	238	0.263		
43	239	0.140		
44	240	0.237		
45	240/990	0.145		
46	241/1	0.086		
47	241/2	0.098		
48	242	0.230		
कुल रकबा		13.773		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आवेग यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9953-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0040-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	9.282 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	: उज्जैन
(ख) तहसील	: उन्नेल
(ग) ग्राम	: बरखेड़ा नजीक
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	: 9.282 हेक्टर

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	428	0.024		
2	423	0.590		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	424	0.683	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	338/2	0.037		
5	421/1	0.016		
6	421/2	0.461		
7	419/2	0.047		
8	358/2/1	0.012		
9	358/2/2/1	0.137		
10	358/2/2/2	0.172		
11	358/2/3	0.211		
12	360	0.092		
13	359	0.598		
14	365	0.217		
15	364/2	0.204		
16	364/3	0.001		
17	363	0.249		
18	367/1	0.133		
19	367/2	0.239		
20	368	0.200		
21	369	0.072		
22	370/1	0.006		
23	381/1	0.251		
24	384	0.369		
25	383	0.010		
26	385	0.486		
27	386	0.146		
28	387/1/1	0.238		
29	387/1/2	0.144		
30	387/1/3	0.064		
31	387/2	0.018		
32	398/3	0.296		
33	398/2/1	0.065		
34	398/2/2/1	0.271		
35	398/2/2/2	0.190		
36	398/1/1	0.600		
37	395/1	0.190		
38	395/2	0.002		
39	396	0.144		
40	397	0.679		
41	281	0.679		
42	245/1	0.038		
43	235/1/2	0.001		
कुल रकबा		9.282		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9954-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0030-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	6.514 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उन्हेल
(ग) ग्राम	:- खोकरी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 6.514 हेक्ट.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	174	0.011		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
2	172/1	0.071	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
3	172/2	0.459		
4	169/2	0.019		
5	168/1	0.010		
6	168/2	0.303		
7	173	0.364		
8	164/1	0.167		
9	164/2	0.024		
10	165	0.290		
11	163/1	0.446		
12	162	0.008		
13	181/510	0.059		
14	153/1	0.477		
15	152	0.162		
16	151	0.001		
17	148	0.023		
18	149	0.441		
19	150	0.029		
20	145/1	0.008		
21	145/2	0.033		
22	145/3	0.048		
23	139/1/1	0.090		
24	139/1/2	0.111		
25	139/1/3	0.138		
26	139/1/4	0.144		
27	139/2	0.140		
28	137/1	0.176		
29	137/2	0.032		
30	140/1	0.409		
31	140/2	0.001		
32	77/1	0.036		
33	77/2	0.025		
34	85	0.404		
35	86	0.120		
36	84/1/2	0.128		
37	84/2/2	0.398		
38	95/1	0.001		
39	95/2	0.349		
40	96/517	0.083		
41	96/1	0.030		
42	96/2	0.246		
कुल रकबा		6.514		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9955-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0036-अ-82-2024-25

चूँकि राज्या शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका रावे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समादात निर्धारण किया गया, जिसका नूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	12.599 हेक्टर

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- उन्नेल
(ग) ग्राम	:- भाखेड़ा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 12.599 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	216/6	0.006		



क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	218	0.258	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
3	219	0.002		
4	217	0.748		
5	215/1	0.495		
6	215/2	0.105		
7	214/1	0.585		
8	214/2	0.227		
9	78	0.003		
10	80	0.852		
11	80/247	0.084		
12	81/4	0.007		
13	81/5	0.100		
14	81/6	0.081		
15	99/4/1	0.119		
16	99/4/2	0.050		
17	99/4/3	0.300		
18	99/4/4	0.123		
19	104/1	0.045		
20	100	1.085		
21	99/1	0.060		
22	98	0.787		
23	97	0.868		
24	51	0.007		
25	28	0.493		
26	27/1	0.778		
27	27/2	0.278		
28	26	0.122		
29	31/1	0.138		
30	31/2	0.491		
31	19/1	0.554		
32	19/2/1/1	0.164		
33	19/2/1/2	0.127		
34	19/2/3	0.061		
35	17/1	0.094		
36	17/2	0.004		
37	9/1	0.043		
38	14	0.316		
39	13	0.264		
40	11/1	0.131		
41	11/2	0.124		
42	10/1	0.210		
43	10/2	0.039		
44	3/1	0.256		
45	2	0.847		
46	1	0.068		
कुल रकबा		12.599		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आशेषों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 9956-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0051-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतिष्ठित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1):-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण	10.816 हेक्टर

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- खावरोद

(ग) ग्राम

:- पाड़सुत्या

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 10.816 हेक्टर.

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	370	0.639		
2	371/1	0.079		

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3	371/2	0.146	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
4	371/3	0.026		
5	372	0.158		
6	373	0.097		
7	375	0.034		
8	376	0.519		
9	377	0.005		
10	390	0.027		
11	382/2	0.160		
12	382/3/3	0.038		
13	382/4	0.140		
14	383	0.248		
15	385	0.094		
16	384	0.255		
17	576/1	0.200		
18	576/2	0.018		
19	575	0.152		
20	574/2	0.077		
21	574/1	0.060		
22	573	0.018		
23	578	0.067		
24	581	0.159		
25	582	0.785		
26	598	0.797		
27	567	0.044		
28	600	0.145		
29	599	0.410		
30	597	0.143		
31	630/2	0.445		
32	630/1	0.348		
33	629/1	0.140		
34	629/2/1	0.670		
35	628	0.473		
36	627	0.363		
37	631/2	0.210		
38	631/3	0.665		
39	633	0.381		
40	634/2	0.081		
41	634/3	0.321		
42	634/4	0.187		
43	634/5	0.198		
44	634/6/2	0.100		
45	583/1	0.060		
46	634/1	0.005		
47	635	0.100		
48	634/6/1	0.177		
49	619/1	0.065		
50	619/2/2	0.029		
51	592	0.044		
52	587	0.014		
कुल रकबा		10.816		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2024

जबलपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

क्र.-ए-7409-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. A-7409-III-10-42-75.- The Judge named in the column No.(3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No.(2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No.(4) for holding Link Court :-

TABLE

S. No.	Place, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uchehara (Satna)	Shri Bishwa Deepak Tiwari, VI District & Additional Sessions Judge, Satna	Two Weeks

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,  
**रितुराज सिंह चौहान**, रजिस्ट्रार  
 (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).

जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

क्र.-C-7207-दो-3-91-2008.-श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (IT-CSA), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2024 तक पांच दिन का आवेदित अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र.-A-7336-दो-2-9-2023.-श्री अजय सिंह ठाकुर, मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 21 सितम्बर 2024 तक, 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ सहित, दिनांक 8 सितम्बर 2024 की शाम से दिनांक 23 सितम्बर 2024 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह ठाकुर, मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय सिंह ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस.), के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4754-दो-2-57-2009.-श्री एफ. एच. काजी रजिस्ट्रार (IT-SA), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच. काजी रजिस्ट्रार (IT-SA), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (IT-SA), के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4747-दो-2-51-2018.-श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 8 सितम्बर 2022 से 7 सितम्बर 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिरपति, महोदय के आदेशानुसार,

**आशीष तिवारी, डी.आर.-कम-पी. पी. एस.**

जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

क्र.-B-4738-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7197-दो-2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7199-दो-2-7-2019.-श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7201-दो-2-46-2023.-श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7203-दो-2-22-2023.-श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 20 अगस्त से 5 सितम्बर 2024 तक, सत्रह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी

दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-7205-दो-2-115-2017.—श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024, तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 17 सितम्बर 2024 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-B-4736-दो-2-16-2022.—श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजाराम भारतीय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार,  
**आशीष तिवारी**, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

क्र.-B-4813-दो-3-420-80-भाग-बारह.— श्री अफसर जावेद खान,, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा

आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवार्त एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक— (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमेदित (Modalities) के अनुसार— श्री खान की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 285 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 646 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- |      |   |   |          |
|------|---|---|----------|
| (i)  | अर्जित अवकाश के एवज                       | — | 285 दिवस |
|      | में नगद भुगतान.                           |   |          |
| (ii) | अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज                 | — | 30/2= 15 |
|      | में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. |   |          |

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार,  
**एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा**, डी.आर.-कम-पी. पी. एस.

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र.-अवकाश-1556.—श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 8 से 22 अगस्त 2024 तक, पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**अनूप कुमार त्रिपाठी**, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.